

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा -षष्ठ

दिनांक -27-07-2020

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज निश्चयवाचक एवं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में पुनः अध्ययन करेंगे ।

निश्चयवाचक सर्वनाम

निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा

जिन शब्दों से किसी व्यक्ति , वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसमें यह , वह , वे , ये आदि का निश्चय रूप से बोध कराते हैं।

जैसे: वह मेरा गाँव है। यह मेरी पुस्तक है। ये सेब हैं। ये पुस्तक रानी की है।

इसमें वह, यह, ये आदि शब्द निश्चित वस्तु की और संकेत कर रहे हैं।

निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार

1. निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम
2. दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम

निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम: जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुओं का निश्चित रूप से बोध कराएँ उन्हें निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे: यह मेरी पुस्तक है। ये मुझे बहुत पसंद है।

इसमें यह और ये निकट वाली वस्तु का बोध करा रही हैं।

दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम: जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उसे दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे: वह मेरी पैन है। वे सेब हैं।

इसमें वह और वे दूर वाली वस्तुओं का बोध करा रहे हैं।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम

अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा

जिन शब्दों से किसी व्यक्ति , वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक बोध न हो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

दूसरे शब्दों में- जो सर्वनाम किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर ऐसे संकेत करें कि उनकी स्थिति अनिश्चित या अस्पष्ट रहे, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।

जैसे: कोई , कुछ , किसी , कौन , किसने , किन्ही को , किन्ही ने , जौन , तौन , जहाँ , वहाँ आदि।

अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण

- मोहन! आज कोई तुमसे मिलने आया था।
- पानी में कुछ गिर गया है।
- द्वार पर कोई खड़ा है।
- तुम्हारे लिए किसी का फोन है।
- कुछ पत्र देख लिए गए हैं और कुछ देखने

लिखकर याद कीजिए।